



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 27, बुधवार, शके 1941-सितम्बर 18, 2019
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941-September 18, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 09, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/9619 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Sujangarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Sujangarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ (चूरु) राजस्थान प्रोफार्मा क		
क्र.सं.	वार्ड सं.	वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	भंवरलाल सारण के घर से पश्चिम दिशा रास्ते पर चलते हुए दक्षिण दिशा के मकान शामिल कर लालचन्द बिजारणिया के घर तक व दक्षिण की तरफ चलते हुए पूर्वी मकान शामिल कर लालचन्द प्रजापत को लेते हुए दक्षिण की तरफ चलते हुए पूर्व के मकान शामिल करते हुए मोहन लाल बुगालिया को लेते हुए पूर्व की तरफ चलते हुए उत्तर के समस्त मकान शामिल कर कन्हैयालाल सोनी को लेते हुए बुगालिया वाटर सप्लायर्स को लेते हुए उतर की तरफ चलते हुए पूर्वी दिशा के मकान शामिल कर मांगीलाल भाटी को लेते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर रूघाराम साडेल से उत्तर की तरफ चलते हुए पूर्व के समस्त मकान शामिल कर शिव मन्दिर रास्ते पर चलते हुए भंवर लाल सारण के मकान तक।
2	2	रेल्वे फाटक नं- 2 जंवरी जांगीड़, बंशी जांगीड़ के मकान से चलकर उतर की तरफ चलते हुए पश्चिम के मकानों को शामिल कर मनोज पारीक मन्दिर को शामिल कर सुशिला गोदारा के घर तक व पश्चिम में मुड़कर गोपाल मारोठिया को शामिल कर

		पश्चिम रास्तो पर चलकर मूलजी सांखला के घर तक व दक्षिण के सभी मकान शामिल का दक्षिण रास्ते पर चलकर टावर वाली गली में जाकर प्रेम तुनवाल को लेते हुए भीखजी प्रजापत को लेते हुए पप्पु सिंह के घर को लेते हुए बलजी साँखला को लेते हुए रामनिवास सांखला को शामिल कर कन्हैयालाल जांगीड़ विक्रम दर्ईया को लेकर मोतीलाल तंवर के घर से सुखजी बाबरिया के नोहरे से चलकर 2 नं. फाटक जंवरी व बंशी जांगीड़ के घर तक।
3	3	नया पुलिस थाना माण्डेता से मेघा हाईवे से दक्षिण की तरफ चल कर गुर्जर कृषि फार्म को लेकर पूर्व में चलकर उतर के सभी मकान शामिल कर हरजी गुलेरिया सांड शाला को लेते हुए घीसुजी बागड़ा के नोहरे को लेते हुए पूर्व की ओर चलकर सुरजमल कच्छावा को लेकर विद्या भारती स्कूल के सामने चलकर सूर्य भगवान मन्दिर रोड़ से मालियों के मकान को लेकर उत्तर घुमकर भंवरजी बुगालिया मांगीलाल बागड़ा से अम्बेडकर भवन शामिल कर पश्चिम के सभी मकानात शामिल कर पुलिस थाना तक।
4	4	भैराराम प्रजापत के घर से दक्षिण में चलते हुए पूर्वी दिशा को लेते हुए टिकुजी बागड़ी सूर्य भगवान मन्दिर को शामिल कर दक्षिण में चलकर काना माली की टाल शामिल कर टावर वाली गली में पश्चिम में चलकर उतर के मकान शामिल कर इन्दु बाबा बगीची रोड़ पर चढते हुए गीगराज माली को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ चलकर मांडिया प्याउ लेते हुए मेगा हाईवे पर चढकर छापर रोड़ चलते हुए इन्द्रगिरी आश्रम चैराहे से वापस इन्द्रगिरी रोड़ आते हुए हवाई जहाज हवेली को लेते हुए पूर्व की ओर चलकर दक्षिण के मकान शामिल कर चन्द्र भूषण तिवारी विद्या भारती स्कूल शामिल कर सूर्य भगवान रोड़ पर चलकर तोलाराम प्रजापत सामने गली में मुड़कर रूपा सुनार जगदीश डीलर को शामिल कर भैराराम प्रजापत के मकान तक।
5	5	मोहनलाल जादम के घर से रेल्वे लाईन के पास-पास चलते हुए रंग लाल जादम से आगे चलते हुए रामलाल निठारवाल के घर तक पश्चिम के सभी मकानों को शामिल कर पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए रामदेव मन्दिर से लेते हुए नम्रता गेस्ट हाउस को लेते हुए कुशाल गोदारा के गोदाम को शामिल कर नेमीचन्द खाती को शामिल कर पश्चिम में चलते हुए दक्षिण के सभी मकान शामिल कर किशन लाल गुरु के मकान से दक्षिण में मुड़कर भगवानाराम नाई को लेते हुए शिवदान सिंह को लेते हुए दक्षिण की तरफ चलकर भंवरलाल प्रजापत को लेते हुए इन्द्रचन्द तंवर पताशावाला से पूर्व में मुड़कर दीप बाल मन्दिर को शामिल कर सोहनलाल टाक के मकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर सोहनलाल के सामने वाले रायधना खाती को शामिल कर हीरालाल सिंगोदिया को लेते हुए पुखराज कच्छावा के घर से पूर्व में मुड़कर सागर कच्छावा को लेते हुए मोहनलाल जादम के घर तक।
6	6	हनुमान तंवर के घर से उतर की तरफ चलकर पश्चिम के मकानों को शामिल कर

		<p>तुलछाराम सांखला से मुड़कर पश्चिम में चलते हुए मनोहर तंवर राजू तंवर धर्मराज यादव के नोहरे से घुमते हुए उतर की दिशा में चलते हुए पुसाराम बेनीवाल के घर से गोपालपुरा रोड़ से पश्चिम की तरफ चलते हुए गोपालपुरा रोड़ पर चलकर गोपाल माली को शामिल कर मान पब्लिक स्कूल शामिल कर गोपालपुरा रोड़ पर चलते हुए वापिस नलिया बास रोड़ मुड़कर पूर्व की तरफ मुड़कर जैसाराम जाट हरिश गुलेरिया वकील को लेकर इन्द्रचद तंवर ताराचन्द तंवर शामिल कर भंवरलाल शर्मा हरिराम खाती यादव चैक शामिल कर रामदेव यादव को लेकर शंकरलाल तंवर के मकान को शामिल कर हनुमान तंवर के मकान तक।</p>
7	7	<p>श्याम लाल टाक के घर से पश्चिम की तरफ चल कर दक्षिण के मकान शामिल कर बाबुलाल टाक बजरंग लाल तंवर को लेते हुए मनोहर सांखला के घर से दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्व की ओर चल कर रामेश्वरलाल तंवर के मकान को लेते हुए पुसाराम खडोलिया मोहन खडोलिया से माली समाज धर्मशाला तक रेल्वे क्वाटरों को शामिल कर सोहन लाल सांखला से शुरू होकर धर्मराज यादव को लेकर दक्षिण की तरफ रोशन तेली मुखत्यार जी काजी से चांद बास रोड़ पर पश्चिम की तरफ मुड़कर धनराज प्रजापत को लेते हुए कोसर की चक्की से उतर की और घुमते हुए लाल मो0 काँलोनी को शामिल करते हुए वापस रेल्वे लाईन बाबूलाल कच्छावा को लेते हुए एम.आई. कीड्स स्कूल से लेते हुए दक्षिण की तरफ चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए भंवरलाल सोनी के पुत्रों के मकान लेते हुए पूर्व की तरफ चलते हुए दक्षिण के मकान लेते हुए छगन लाल टाक का मकान लेते हुए पश्चिम की तरफ चलकर भंवरलाल खाती की पूरी गली शामिल कर डी.डी. स्प्रिंग डेल स्कूल की दोनो गली शामिल कर प्रहलाद शर्मा की गली लेते हुए उतर की तरफ चलकर बाबूलाल कच्छावा के घर को शामिल कर पश्चिम में चलते हुए विश्व नाथ माली को लेते हुए रूपचन्द तंवर हेतराम तंवर की गली को लेते हुए डूंगर रोड़ पर आगे चलकर बालाजी मन्दिर को शामिल कर विनोद सोनी के घर को शामिल कर दक्षिण में चलते हुए भंवरलाल वीर के घर को शामिल कर दक्षिण में चलते हुए पूर्व के मकान शामिल कर भंवरलाल प्रजापत वकील का घर शामिल कर भवानी सिंह फोजी से दक्षिण की तरफ चलते हुए जितु सिंह राजेन्द्र सिंह को शामिल करते हुए दक्षिण तरफ चलकर मालचन्द भाटी बाबुलाल भाटी को शामिल कर पूर्व में चलकर जगदीश तंवर की बाड़ी को शामिल कर हेतराम तंवर को शामिल कर विश्वनाथ को शामिल कर बाबुलाल कच्छावा के घर तक।</p>
8	8	<p>नथमल टेलर के मकान से शुरू होकर पश्चिम में चलकर भंवर लाल जांगिड़ सोहनलाल कच्छावा के घर से पश्चिम में चलते हुए उतर में मुड़ते हुए मदन लाल तंवर के पुराने नोहरे दुकानों को शामिल करते हुए पश्चिम में चलकर सुरजीत सिंह राठौड़ को शामिल कर दक्षिण में मुड़कर पूर्व के सभी मकान शामिल करते हुए गोपाल माली के घर से आगे चलकर पूर्व में मुड़कर पप्पु भार्गव के मकान शामिल कर पूर्व दिशा में चलकर अशोक तंवर के मकान व पुरी गली शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़ते हुए रफिक खींची की खाली जमीन को शामिल कर खूबचन्द</p>

		<p>सांखला के नोहरे को लेते हुए रूपजी टाक की बाड़ी शामिल कर चांद बास रोड़ पर चलकर पश्चिम में चलते हुए उतर के मकान शामिल कर मुख्त्यार तेली के घर से दक्षिण में चलते हुए पश्चिम के मकान शामिल कर बालोदिया काँलोनी छोड़कर रघुनाथ रणवा की ढाणी को शामिल कर भंवरिया की ढाणी व नायक बस्ती शामिल कर मेगा हाईवे चढकर उतर की तरफ चलकर गोपालपुरा चोराहा पूर्व की ओर चलकर हनुताराम मांडिया को शामिल कर चैधरी तिलोक नगर में चलकर रतनलाल प्रजापत को लेते हुए दक्षिण में चलकर सांवरमल सांखला के नया मकान व गोपी कृष्ण का मकान शामिल कर मदन लाल टाक ताराचन्द टाक के घर से घेवरचन्द की बाड़ी शामिल कर किशनलाल भाटी, सागर भाटी, मोहनलाल भाटी, नेमीचन्द भाटी को लेते हुए भागीरथराम टाक को लेते हुए इन्द्रचन्द की जमीन को शामिल कर पेमाराम टाक की बाड़ी शामिल कर मदनलाल तंवर को लेते हुए पूर्व दिशा में भार्गव बस्ती को शामिल कर भंवरलाल तंवर के घर से रूपेश जनरल स्टोर से दक्षिण में रूपेश की बाड़ी को लेकर रामुजी डाक्टर की बाड़ी को लेकर रूप जी टाक की बाड़ी लेते हुए रफिक खींची की बाड़ी को लेते हुए अशोक तंवर के नोहरे को लेते हुए रामेश्वरलाल यादव लेते हुए घमण्डी राम धोबी के मकान को शामिल कर नथमल टेलर के घर तक।</p>
9	9	<p>नोरतन माली से उतर की तरफ चलकर पश्चिम के मकान शामिल करते हुए मुन्ना खींची, कन्हैयालाल माली की चक्की चलते हुए हीरालाल प्रजापत की चक्की से मुक्तयार तेली के घर से चलकर पश्चिम की मुड़कर दक्षिण के सुजानगढ क्षेत्र के समस्त मकानात भूमि शामिल कर दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्व दिशा के भूमि मकानात इस्माईल चैहान, रामनिवास प्रजापत मदरसा तेलियान तक समस्त मकानात शामिल कर पूर्व की तरफ चलकर नोरतन माली तक।</p>
10	10	<p>मंगतु खींची की चक्की से उत्तर दिशा की तरफ चलकर पश्चिमी तरफ के मकानात फरहान काजी बेल्लिंग कारखाना, जैसराज माली की बाड़ी, हारून गौरी, सलीम खींची सहित सुजानगढ क्षेत्र के समस्त मकानात भूमि शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर सुजानगढ क्षेत्र के समस्त मकानात भूमि शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर सुल्तान खींची की गोदाम जामीया हासीयान मदरसा, जीतु काजी से मुमताज दर्इया के मकान से पूर्व की तरफ मुड़कर मंगतु खींची की चक्की तक।</p>
11	11	<p>कानसिंह के मकान से पश्चिम की तरफ चलते हुये गैनाणी को छोड़ते हुए दक्षिण दिशा के मकानात शामिल कर सोहनलाल यादव के नोहरे को लेकर पश्चिम दिशा में चलते हुये दक्षिण तरफ के मकानात लेते हुए ईशाक टाक को शामिल कर हनीफ छींपा से दक्षिण की तरफ मुड़कर शाबीर खोखर से पश्चिम की तरफ चलते हुये रमजान छींपा सलमान छींपा के नोहरे से इकबाल छींपा को लेकर पश्चिम की तरफ चलकर मंगतु पंवार से अनवर टाक, कालू शहरवाला, मांगीलाल छींपा कर पश्चिम दिशा में चलकर सलीम पंवार को लेकर मो. रफिक छींपा से सुजानगढ गंगासिंह बाड़ी सीमा के समस्त मकान शामिल कर बैद हास्पिटल तक सुजानगढ सीमा शामिल कर पूर्व दिशा में मुड़कर उतर दिशा के मकानात शामिल कर पूर्व में चलते हुए करणी</p>

		स्टोर गांगासिंह का बाड़ा, मोहम्मद मोलानी सांखला टेन्ट हाउस करणी मार्केट को लेते हुए कानसिंह के मकान तक।
12	12	राजकीय चोरड़िया प्रा.वि. से दक्षिण से पश्चिम कालाबाल मंदिर हीरालाल सोनी धर्मकांटा दिल्ली टायर उत्तर से मुड़ते हुए रेल्वे की पूर्व सीमा को लेकर छिंपियान स्कूल मनसुख गोपाल की बाड़ी सुजानगढ की सीमा को लेकर नारायण सिंह गंगासिंह बाड़ी को छोड़ते हुए असलम मौलानी जस्सु खां बाबूलाल खोखर के पीछे की गली लेते अबुल हसन का नोहरा बाबुलाल पोखर इदरिश खींची बेकरी वाले अब्दुल समद के मकान को लेते हुए टेलिफोन एक्सचेंज के उतरी तरफ मुड़ते हुए काला बाल मंदिर से चैरड़िया विद्यालय तक।
13	13	कन्हैयालाल सोनी के मकान से दक्षिण से उतर चलते हुए सिंधी कुआ माफी दफ्तर का मकान से रोशन खिंची के मकान से केजीएन रोड से खलील दर्इया से खलील अगवान अजक अहमद खिंची से कालू जी प्रजापत दुकान व मकान अयुब की मीटर रीडर धोळु जी मास्टर बाई पास रोड से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए पूर्व सीमा को लेते हुए मन्नु खां का मकान सलीम दुली का नोहरा तिराहा से मुड़ते हुए पूर्व चलते हुए महबूब अगवान का नेहरा एस.टी. काजी दाधीच भवन को लेते हुए कन्हैया लाल सोनी के मकान तक।
14	14	भाटी चैम्बर से पूर्व की तरफ चलकर पवन तंवर पुत्र मदनलाल तंवर के घर से दक्षिण की तरफ मुड़कर इस्माईल बडगुर्जर के नोहरे से पश्चिमी मुड़ते हुए केजीएन रोड पर चलते हुए दर्इया मेडिकल स्टोर को लेते हुए लालजी को लेते हुए दक्षिणी कोर्नर को लेते हुए पश्चिम की तरफ चलते हुए एन.एच.65 पर चढ कर वापिस भाटी चैम्बर तक।
15	15	जोराराम की चक्की से शुरू कर एन.एच. 65 सड़क पर दक्षिण दिशा में चलकर पूर्व दिशा के मकान एवं दुकान शामिल कर कृष्णा मार्बल सुरज वाटिका चैधरी मोटर्स बाबूलाल पंवार से पूर्व दिशा में मुड़कर उतरी दिशा के मकानात शामिल करते हुए हनुमान धोरा की तरफ चलते हुए भंवर सिंह दरोगा से उतर की तरफ मुड़कर पश्चिम के सारे मकान शामिल कर देव नारायण मंदिर को शामिल कर जेठाराम गुर्जर, काूलराम गुर्जर से पश्चिम में मुड़कर जोराराम की चक्की तक।
16	16	वेलकम होटल से जांगिड़ भवन मांगीलाल बागड़ा से पश्चिम में मुड़कर भंवरलाल बागड़ा जगदीश पाण्डया हनुमान पारीक कन्हैयालाल बागड़ा नरेन्द्र पारीक जगदेव नाथ, घनश्यामनाथ कच्छावा, पृथ्वीराज बागड़ा, पवन गोदारा पश्चिम दिशा के समस्त मकान शामिल करते हुए दक्षिण दिशा में चलते हुए विमल जांगिड़ के मकान को लेकर दक्षिण की तरफ चलते हुए राजकीय विद्यालय नं. 12 से पश्चिम की तरफ चलते हुए उतर दिशा के मकानात शामिल करते हुए मानव सेवा संस्थान सीताराम काँलोनी परती बाई की कुई को लेकर पश्चिम की तरफ चलते हुए भींचर चैक सम्मिलित करते हुए सुगनाराम रूलानिया को शामिल करते हुए हरिराम जानू भवानी मार्केट को लेते हुए रतनलाल बेड़ा प्रेम टेन्ट हाउस वेलकम होटल तक ।

17	17	<p>भंवरलाल पंवार काली माता मंदिर से मनोहर बागड़ा से सांगलिया बगीची से भीकमचन्द बागड़ा से गोगामेड़ी से रामदेव मंदिर लेते हुए झिलमिल काँलोनी लेते हुए कोठारी रोड़ पर चोड़िया के मकान से पश्चिम में मुड़कर उतर के मकान शामिल कर बागरेचा की बाड़ी से उतर मुड़कर भंवरलाल बोदड़िया, हनुमान छरंग से बालाजी मंदिर लेकर पूर्व में मुड़कर केदार जोशी को लेकर हीरालाल पारीक मदनलाल बागड़ा से मनोज पारीक गोपाल बागड़ा सत्यनारायण पारीक नन्दू बागड़ा शनो बहनजी के मकान को लेकर हरिशंकर पारीक आची बाई से आर.के. डेकोरेशन गोदाम मदन भाट तुलसीराम प्रजापत से भंवरलाल पंवार तक।</p>
18	18	<p>गेनाणी पम्प हाउस से लाडनू रोड़ गेनाणी लेते हुए पश्चिम की तरफ फारुक जिनवा, महबूब जिनवा, पूनम मोची, जंवरुदीन छींपा से महबूब खत्री खुड़ीवाला से उतर की तरफ चलकर पश्चिम रास्ते पर चलते हुए छोटूजी पंवार होते हुए पनजी की बाड़ी सलीम को शामिल कर मस्जिद नाई कार्नर मकान से दक्षिण की तरफ चलकर इसाक गौरी शामिल कर राजा पंवार चलकर दक्षिण की तरफ चलते हुए सलीम पंवार को लेकर दक्षिण की तरफ चलकर मंगतु जी खोखर से पूर्व में दिशा में चलकर बंद गली मांगीलाल को शामिल कर दक्षिण की तरफ चलते हुए फिरोज खड़ीवाला से पूर्व की तरफ चलकर उतर का मकान हनीफ को लेकर पूर्व में तरफ चल कर बांया हाथ मकानात लेते हुए युसुफ खिलजी के मकान लेते हुए दक्षिण के उतर दिशा के तरफ मुड़कर अनवर पंवार से चलकर पूर्व की तरफ चलकर साबीर खोखर से कालू छींपा, सदीक छींपा से चलकर युसुफ रामगढ वाले को शामिल कर गेनाणी तक मुरली शर्मा को शामिल करते हुए दक्षिण से पूर्व के चलते हुए गेनाणी पम्प हाउस तक।</p>
19	19	<p>गणेश मंदिर से उतरी दिशा चलकर पूर्वी साईड जलदाय विभाग की बाउड़ी को शामिल कर दक्षिण मुड़कर 18 नम्बर पावर हाउस को शामिल कर पश्चिम चलते हुए रफीक गौरी, इकबाल भाटी, रफीक टाक की पीछे की गली लेते हुए इकबाल, नानू छींपा, बाबूलाल, बबलू खोखर, ईस्माईल गौरी को शामिल कर पूर्व चलते हुए दक्षिणी साईड लेकर नत्थु जी खड़ी वाला हंसराज खोखर दक्षिणी साईड मुड़कर युसुफ पंवार सदीक पंवार मुन्ना बाबू खोखर से चलकर पूर्व दिशा मुड़कर उतरी दिशा लेते हुए रजाक पंवार घीसूजी पंवार, महबूब खुड़ीवाला,यूनस खुड़ीवाला आबाद तेली के पीछली साईड में गेनाणी सीमा उतरी साईड में मुस्सा जी मास्टर, सम्पत धोबी, सरीफ लियाकत हाजी, कालू सुलेमान से लाडनू रोड़ पुलिया से चलकर नत्थु शम्सुगौरी से मूलजी स्वीट्स शामिल कर गणेश मंदिर तक।</p>
20	20	<p>मोहनलाल चोरड़िया के खाली नोहरे से उतर की तरफ चलकर पूर्व दिशा के मकानात फूलफगर निवास आसुलाल का मकान से उतर की तरफ चलकर महमूद खां नारू के मकान से पश्चिम तरफ मुड़कर दायें हाथ के मकानात शामिल करते हुए जलेबी शाह मदरसा को लेते हुए गुलाम खां मोयल के मकान को लेकर उतर की तरफ चलकर खालीद अगवान के मकानात को लेकर खलील दहिया से पूर्व दिशा में मुड़कर मो. अली खींची डालाराम खींची के घर को सम्मिलित करते हुए के.जी.एन. रोड़ पूर्व की तरफ चलते हुए दायें हाथ के समस्त मकानात सम्मिलित करते भैरूदान रामलाल</p>

		कुचेरिया से दक्षिण दिशा में चलते हुए पश्चिमी दिशा के मकानात शामिल करते हुए सुराणा गेस्ट हाउस से मोलानी बिल्डिंग होते हुए मोहनलाल चोरडिया के नोहरे तक।
21	21	आईदान जी मकान से उतर चलकर दक्षिण दिशा के मकान को सामिल कर दौलत दर्जी हरिश रावतानी पश्चिम मुडकर नानू जांगिड भारत माता चैक से आगे चलकर छगनजी गुर्जर गुर्जर भवन कानजी भाटी उस्मान अयूब खिंची मोहम्मद भाटी केजीएन चैराहा क्रोस ईस्लाम खिंची हुसैन जी भाटी से पूर्व मुडकर राजू चैहान दईया भवन उतर मुडकर पूर्व दिशा को लेकर ईशाक जी महबुब खिंची बाबू साई गुलाम रसूल जी अगवान से चैराहा क्रोस कर सदीक पटवा सलीम हुसैन पडिहार क्रिम खिंची जाफर नाई मईनुदीन नाई से आईदान जी के मकान तक।
22	22	लुहार गाडा चैक अखण्डनाथ बगीची से पूर्व दिशा चलते हुए दक्षिण दिशा की तरफ कमल चुरी उद्योग की गली में दोनो तरफ के मकान शामिल कर आगे चलकर धनराज लुहार से दक्षिण दिशा की गली में चलते हुए पश्चिमी दिशा के मकानात मालाराम मालू, गोरू दरोगा, कन्हैयालाल इंगरवाल को शामिल कर पश्चिम की तरफ मुडकर उतरी दिशा के मकानात शामिल कर कार्नर मकान इंगरवाल का मकान शामिल कर पश्चिम की तरफ चलकर रामनिवास गुर्जर के घर को लेकर हनुमान को लेकर लीलाधर नाई, नोरतन नाई, मोडू जी की टाल से पूर्व दिशा से मुडकर लुहारा गाडा चैक अखण्डनाथ बगीची तक।
23	23	सोनी धर्मशाला से शुरू होकर दक्षिण दिशा रास्ते पर चलकर श्रवण जाखड़ का मकान, मालचन्द प्रजापत, कब्रिस्तान के पास हनुमान मल गुर्जर को शामिल कर माता जी मंदिर हनुमान जाट को शामिल कर पश्चिमी दिशा चलकर ब्लेसिंग स्कूल लुहार बस्ती नायक घर, पानी की टंकी सुखदेव स्वामी को शामिल कर उतर दिशा रास्ते पर चलकर नागौर सीमा छोड़कर दिनेश सोनी पवन शर्मा, ओमजी जाट से चलकर एन.एच. 65 पर चढकर पूर्वी दिशा चलकर दक्षिण दिशा के मकान व रामदेव मंदिर लाडनूं चूंगी नाका झंवर स्कूल नगर परिषद की खाली भूमि का शामिल कर सोनी धर्मशाला तक।
24	24	पुलिया चोक मस्जिद से शुरू होकर पश्चिमी दिशा रोड पर चलकर टाक,हाउस टाक टेन्ट हाउस,रजनी राकावंत भाटी सदन, नामदेव मंदिर सामिल करते हुए कार्नर सोनी धर्मशाला रोड पर चलकर आसुजी नाई का मकान भँवरलाल काछवाल, परमानन्द काछवाल, प्रभानन्द शर्मा से उतर दिशा रास्ते पर चलकर दक्षिण दिशा के मकानात पारीक मंदिर धनराज गोदारा, हरिश जी पण्डित कार्नर का नोहरा, रफीक, इदरीश गौरी को शामिल कर पश्चिमी दिशा रास्ते पुलिया रोड चलकर दक्षिण के मकान जडिया भवन भराडिया स्कूल से चलकर पुलिया चैक मस्जिद तक।
25	25	पांडया धर्मशाला से शुरू होकर पश्चिमी दिशा पुलिया रोड पर चलकर दक्षिण के मकान खेमचन्द बगडा,हनुमान गेस्ट हाउस अयूब बांस वाले शिवभगवान मोदी की दूकान से दक्षिण की तरफ मुडकर पूर्वी दिशा के मकान माणक ब्यास उदयचन्द सोनी श्याम सुन्दर रिणवां, जय किशन भढाडरा, हरिप्रसाद भोजक, तिलोकचन्द फूलभाटी को लेते हुए कब्रिस्तान के पास पास पूर्व चलकर दक्षिण तरफ के मकान

		सत्यनारायण प्रजापत जेसराज पीपलवा पश्चिमी दिशा को सामिल कर वापिस पानी की टंकी सामिल कर उतर दिशा झँवर स्कूल के पास से पश्चिमी के मकानात चांडक रोड पर चलकर महेश पीपलवा दिनेश चांडक धोबी चैक दिनदयाल दायमा पुराना महेश्वरी भवन को सामिल कर पूर्व चलकर झवर रोड पर चलकर उतर रोड कोने के भवन पांडया धर्मशाला तक।
26	26	कठौतिया मार्केट, पुरानी तहसील उतर की तरफ चलते हुए टेलीफोन टावर की गली को लेते हुए डोसी की चक्की मस्जिद की गली दक्षिण को लेते हुए संजय भूतोडिया पश्चिम में मुड़ते हुए चार मालिया हवेली से कुचेरिया चैक छोड़ते हुए उतर में मुड़कर खाली नोहरा को लेते हुए हसन शैर मोहम्मद को लेते हुए हारून सांई के मकान से पूर्व में घूमते हुए श्रवण जी सोनी के मकान से होते हुए सामने उतर में पट्टियों वाली गली में घुमते हुए साजिद मोयल के मकान को लेते हुए कमल डागा चुरी की पुरी गली के दोनो तरफ व लुहार गाडा चैक से हनुमान धोरा छोड़ते हुए के मकान छोड़ते हुए तोलियासर भैरूजी को लेकर पूर्व दिशा में चलकर दक्षिण दिशा के समस्त मकान शामिल करते हुए ब्रहमकुमारी ईश्वरी विश्व विद्यालय से शाखा को लेते हुए कोठारी रोड पर दक्षिण की तरफ मुड़कर वन्दे मातरम फ्लेट से लेकर दक्षिण की तरफ चलते हुए मूलचन्द बागरेचा को लेकर कोठारी रोड पर दक्षिण की तरफ चलते हुए ओसवाल संघ से मंजुला पार्लर तक के समस्त पश्चिमी मकानात लेते हुए कोठारी रोड पर चलते हुए पश्चिमी मकानात को शामिल करते हुए लोढा महफील के सामने का हिस्सा लेकर एस.बी.आई. बैंक को लेकर बैंक के सामने से पश्चिम की तरफ मुड़कर कठौतिया मार्केट तक।
27	27	हिरालाल बुगालिया की दुकान से स्टेशन रोड पर दक्षिण तरफ चलते हुए संजीवनी मेडिकल तक पश्चिम दिशा के समस्त दुकानात एवं मकानात सम्मिलित करते हुए शर्मा निवास को लेते हुए शास्त्री प्याउ को सम्मिलित करते हुए बजरंग सोमानी तक पश्चिम दिशा के समस्त मकानात दुकानात को लेते हुए सरकारी अस्पताल प्रेम मिष्ठान भण्डार से घण्टाघर तक पश्चिमी दिशा के समस्त दुकानात मकानात शामिल करते हुए दक्षिण की रोड पर आगे चलकर लालचन्द बगड़ा की दुकान को लेकर एलटीसी. माल को लेकर आगे की सड़क पर पश्चिम दिशा में मुड़कर इन्द्रा प्लाजा, माणक मेडिकल शामिल कर प्रताप चाय वाले की दुकान से गांधी चैक में मुरली होटल को लेकर पश्चिम की तरफ बढकर एस.बी.आई. बैंक से पहले की गली में उतर की तरफ मुड़कर डोसी सदन गोविन्द जी किताब घर से कोठारी रोड पर चढकर उतर दिशा की तरफ चलकर सत्यम रेजिडेन्सी काम्लेक्स को शामिल कर पूर्वी दिशा के समस्त मकानात लेते हुए अजमेरा टेलर शिवा ड्रेसेज नुतन फोटो स्टुडियो को लेकर अशोक सिंघी को लेकर कोठारी रोड पर चलते हुए पूर्वी दिशा में समस्त मकान शामिल करते हुए अजय चोरडिया सेठिया गार्डन गोलछा भवन डालमचन्द नाई के मकान को लेकर पी.सी.बी. स्कूल के कार्नर से पूर्व दिशा में चलकर मनोहर नाई ताराचन्द का गोदाम डालमचन्द खाती से हिरालाल बुगालिया तक।

28	28	<p>भंवरलाल चुड़ीवाल के नोहरे से दक्षिण दिशा में चलते हुए पूर्व पश्चिम के दोनो तरफ के मकान शामिल करते हुए मुनीम जी चक्की शंकरलाल गुर्जर महावीर प्रसाद शर्मा बीएस. गारमेन्ट बंशीधर पोसवाल को लेकर शिव शक्ति मन्दिर के आगे दांया बांया खाली नोहरे को शामिल कर पूर्व की तरफ चलते हुए दक्षिण दिशा के मकान शामिल कर वीर तेजा बिल्डिंग को शामिल कर दक्षिण तरफ के समस्त मकान शामिल कर हरीश प्रजापत को लेकर शिव बाड़ी रोड़ पर दांयी तरफ के खाली नोहरे को शामिल कर दक्षिण दिशा के चलते हुए तनसुख लाल प्रजापत को शामिल कर दक्षिण की तरफ चलकर भागीरथ गुर्जर के नोहरे से पश्चिम दिशा में मुड़कर उतर दिशा के मकानात गणेश प्रजापत कैलाश सिंह उतरी दिशा के समस्त मकानात खाली जमीन को शामिल करते हुए हुलासचन्द प्रजापत से उतर की तरफ मुड़कर पूर्व दिशा से मकानात डालमचन्द कैलाश सोनी पन्नालाल रिधकरण दर्जी को शामिल कर उतर की तरफ चलते हुए लूणाराम पाणेचा को शामिल कर उतर की तरफ चलकर नया बास क्लब को लते हुए 10 नम्बर स्कूल को लेते हुए नया बास बगीची को शामिल कर सांड शाला को लेकर झंवर स्कूल से पूर्व दिशा में मुड़कर दक्षिण की तरफ के मकान शामिल कर भंवरलाल चुड़ीवाल के नोहरे तक।</p>
29	29	<p>महादेव जी के भट्टे से दक्षिण दिशा चलते हुए इन्द्रचन्द टीकमचन्द नाई पूर्व दिशा के समस्त मकानात लेकर मोती सिंह के घर के सामने वाले नोहरे को शामिल कर पूर्व दिशा में मुड़कर उतर दिशा के मकानात शामिल करते हुए मेहताडिया निवास से उतर दिशा में मुड़कर प्रजापति अतिथि भवन मोहनजी ओस्तवाल पश्चिम दिशा के समस्त मकानात लेते हुए मालचन्द दिपचन्द धेवरचन्द भार्गव शनि मंदिर मास्टर राम स्वरूप प्रजापत को लेकर दक्षिण मुड़कर जगदीश प्रजापत को लेकर धनराज प्रजापत से पश्चिमी दिशा से श्यामलाल प्रजापत उतर दिशा में मुड़कर शमशान भूमि के मैन दरवाजा से दक्षिण तरफ मुड़कर महादेव भट्टा तक।</p>
30	30	<p>पोस्ट आफिस से पश्चिम की तरफ समस्त भाग गांधी बालिका स्कूल से दक्षिण दिशा में चलकर नया महेश्वरी भवन घोडेला मार्केट लक्ष्मीनारायण लड़ा को शामिल कर दक्षिण दिशा में चलते हुए पश्चिम दिशा के समस्त मकानात शामिल करते हुए रामलाल मोची को लेकर जगदीश मिरणका के पुराना मकान को लेकर पूर्व की तरफ मुड़कर चलते हुए दक्षिण के मकान शामिल करते हुए नथमल गुर्जर को लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर चलकर पश्चिम दिशा के मकान को शामिल करते हुए भेराराम शर्मा को लेकर सोहनलाल प्रजापत से पश्चिम तरफ मुड़कर श्री निवास चोटिया नोरतन दाधीच डा हरिप्रसाद दाधीच विजय कुमार लाहोटी का नोहरा से उतर की तरफ मुड़कर चलते हुए सीताराम सारडा पालीराम जी गुरुजी का मकान लेते हुए सत्य नारायण चाण्डक का मकान सीताराम जी का मंदिर त्रिशला स्कूल से दीनदयाल तापडिया के मकान से भराडिया धर्मशाला के पश्चिमी दक्षिणा कोना को लेकर सिंधी मंदिर के पीछे वाली गली सडूवाला पैलेस डा मोहन जैन अरुण गैस एजेन्सी से लुहार बस्ती एन.के.लोहिया स्टेडियम को साथ लेते हुए आयुक्त क्वाटर ईदगाह</p>

		मस्जिद बाकलीवाल भवन को लेते हुए सिंधी मंदिर के मुख्य द्वार को साथ में लेते हुए सब्जी मंडी पीएनबी बैंक को लेकर गांधी चैक से पोस्ट आफिस तक।
31	31	निरंजन सोनी वकील से पूर्व दिशा में चलते हुए हितेश ज्वैलर्स को लेकर मुनेन्द्रा फोटो स्टुडियो से पूर्व दिशा में चलते हुए दक्षिण दिशा के समस्त मकानात दुकान शामिल करते हुए सुमित आफसेट के मकान लेकर जैन भवन को शामिल कर विष्णुदत्त त्रिवेदी के मकान को लेकर जैन स्कूल को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़कर पश्चिम दिशा के मकानात को शामिल करके मध्य विश्राम स्थल (बिचला बासा) को लेकर रामस्वरूप की पिछली गली में दक्षिण मुड़कर पश्चिम के मकानात शामिल करते हुए चैराहा से पश्चिम मुड़कर उतर के मकानात शामिल करते हुए धनराज प्रजापत की पास वाली गली में उतर के मकानात शामिल कर धनराज श्यामलाल को छोड़ते हुए शमशान भूमि शामिल कर महादेव पब्लिक स्कूल को छोड़ते हुए उतर मुड़कर पूर्व के मकानात शामिल करते हुए नथमल गुर्जर के मकान के सामने वाला मकान लेकर मिश्रीलाल बगड़ा से उतर दिशा में मुड़कर पूर्व दिशा के मकानात शामिल करते हुए राजमल मदनलाल पाटनी से पूर्व दिशा में मुड़कर अनवर टाल वाले को शामिल करते हुए डा. सरोज छाबड़ा को सम्मिलित करते हुए निरंजन सोनी तक।
32	32	शिवबाड़ी से उतर दिशा में चलते हुए पुजा बिल्डिंग मेटेरियल अम्बिका निवास उतर की तरफ चलते हुए पूर्वी दिशा के समस्त मकान शामिल करते हुए पम्प हाउस लेकर नगर परिषद की दुकानात से पूर्व दिशा में मुड़कर विश्वकर्मा धर्मकांटा को लेकर नाथो तालाब को शामिल कर पूर्व दिशा में चलते हुए नगर परिषद के पार्क को शामिल कर पशु चिकित्सालय को शामिल कर सोना देवी सेठिया महाविद्यालय को शामिल कर ऐडीशनल एस.पी. कार्यालय एम.डी. टेलर साई बाबा मन्दिर से सिवरेज एस.टी.पी. सुजानगढ क्षेत्र के समस्त भाग को शामिल कर दक्षिण दिशा ताल तक सुजानगढ की सीमा को लेते हुए भार्गव बस्ती मालियों का मोहल्ला ताल से पश्चिम दिशा में चलते हुए समस्त आबादी क्षेत्र शामिल कर रोड़ पर चढकर उतर दिशा की तरफ मुड़कर शिवबाड़ी तक।
33	33	घण्टाघर से पूर्व दिशा में चलते हुए दक्षिण दिशा की दुकानात शामिल करते हुए भगवती प्रसाद विजय कुमार मंगलम स्टील दक्षिण दिशा की दुकानात शामिल करते हुए ब्लड बैंक को लेकर रामगडिया धर्मशाला को लेकर श्यामजी के मंदिर को शामिल दक्षिण दिशा के समस्त मकान शामिल कर चतुर्थ लाल मिश्रा से आगे खाली नोहरे से दक्षिण दिशा में मुड़कर बाबुलाल सोनी, रामोतार सोनी के मकान सहित पश्चिम दिशा के मकानात शामिल करते हुए जेठमल बोचीवाल के घर से पश्चिम की तरफ मुड़कर सुरेन्द्र माटोलिया से दक्षिण की तरफ मुड़कर हेमन्त वकील रामरतन बोचीवाल को लेकर शेर बाग से पश्चिमी तरफ मुड़कर शितला मण्ड को लेते हुए आर्युवेदिक हास्पिटल शनि मंदिर को शामिल कर पश्चिम दिशा में चलते हुए उतर दिशा के मकान एवं दुकानात शामिल करते हुए घण्टाघर की गली में उतर की तरफ

		चलकर एस.बी.आई. चोराहा से किताब घर को लेकर घण्टाघर तक।
34	34	हास्पिटल चैराहा से दक्षिण की तरफ चलकर पूर्व दिशा की दुकानात शामिल करते हुए अर्जुन सिंधी की दुकान तुलछीराम भंवरलाल धनलक्ष्मी काम्पलेक्स बगड़ीया शूज को शामिल कर घण्टाघर से पूर्व की तरफ मुड़कर उतर दिशा की दुकानात शामिल करते हुए पुराना टेलीफोन एक्सचेंज से संतोष मंगलुणिया राहुल देव शर्मा के आफिस डा. प्रकाश काच्छवाल, रफीक जज साहब का मकान से उतर दिशा में मुड़कर श्रीराम सोनी का मकान ताराचन्द माटोलिया, सिंगोदिया के मकान से पश्चिम तरफ मुड़कर पूर्ण चन्द घोड़ेला परशुराम गार्डन शंकट मोचन मंदिर गोड़ भवन लेकर अखिलेश पारीक का मकान से आगे बेड़िया डिपार्टमेन्टल स्टोर से उतर चलकर मुरली मीठड़ीवाला के घर से पश्चिम दिशा चलकर नया बाजार चैक गोपाल मोची सागरमल सोनी प्रकाश मोची से हास्पिटल चैराहा तक।
35	35	गाड़ोदिया गेस्ट हाउस से शुरू होकर उतर दिशा में आगे चढकर नोहरा गाड़ोदिया शामिल कर दांयी तरफ मुड़कर पन्नालाल सोनी को लेकर आगे चलकर पूर्व की तरफ दक्षिण दिशा के मकानात लेते हुए उतरी दिशा में चलते हुए पूर्वी दिशा के गोपाल मेघवाल की दुकान से आगे पूर्व दिशा में चलकर आगे दुलिया तलाई का शामिल कर अख्तर के मकान लेकर पूर्व दिशा में आगे चलकर सालसर रोड़ क्रोस कर दक्षिण में चल कर दांयी साईड को आगे कार्नर पर नोहरा कानाराम कुम्हार को लेकर पश्चिम की तरफ चल कर दांये हाथ उतर दिशा के मकानात शामिल करते हुए नानूजी मणिहार के आगे जगदीश जोशी के मकान को लेकर आगे चलते हुए शांता सदन को लेकर उतर दिशा के मकानात शामिल कर गाड़ोदिया गेस्ट हाउस तक।
36	36	निर्मल सर्राफ की दुकान से बजरंगलाल सोनी की दुकान से संजय आर्य की दुकान से गिरधारीलाल भार्गव से घुमते हुए माणक चन्द मोदी की दुकान से सड़क क्रोस कर विनिय मेडिकल से घुमते हुए शिव बगड़िया की दुकान से होतेहुए बाएं घुमते हुऐ विश्व नाथ का नोहरा से बाए घुमते हुए भार्गव बस्ती को शामिल करते हुए यासीन से महबूब व्यापारी के मकान से रहीस भुट्टा का मकान से शंकरलाल बगड़िया की दुकान से रास्ता क्रोस कर ढाणीवालों की हवेली से केसरिया कंवर जी को शामिल करते हुए बाबूलाल कुलदीप के नोहरे से गंगा माता मंदिर के सामने से छगन लाल फलवाड़ीया के घर से मोहनलाल बांसीवाल के घर से नानुराम जुनवाल को साथ लेकर हुए रास्ता क्रोस कर रामुराम कासोटिया से गीगाराम कासोटिया से नारायण डाबरिया से मेघाराम पिलानिया से बाए घुमते हुए केलाश पारीक के मकान से मदन भारी के मकान से रास्ता क्रोस कर राधेश्याम सोनी के मकान से वैद्य भंवरलाल शर्मा से रतन जाट की दुकान होते हुए जाट नोहरा को शामिल कर रामपुरिया काटेज से आगे चलते हुए निर्मल सर्राफ की दुकान तक।
37	37	मूलाराम फलवाड़िया के घर से किशनलाल मंडावरिया केशर से रामदेव फलवाड़ीया पतासा वाले के घर से सुरजाराम फलवाड़िया के घर से रास्ता क्रोसकर लुणाराम सुवासिया को शामिल कर ह्लासाराम फलवाड़िया के घर से लक्ष्मणराम सिंगाड़ीया के

		<p>घर से घीसाराम जाटोलिया से गंगामाता मंदिर चौक को शामिल कर रैगर पंचायत भवन से ताराचन्द फलवाड़ीया से नरसाराम फलवाड़िया के मकान से फुलचन्द खत्री के मकान से बाएं घुमते हुए शिवा लाटा केयर से भंवरलाल लुहार के घर से अनाराम डाबरिया के घर से याकुब व्यापारी से मोहनलाल फलवाड़िया के घर से सलीम व्यापारी से हाजी इलियास व्यापारी से खुर्शीद सब्जी फरोश के घर से अहमद जी की चक्की से साबीर कुंजड़ा की दुकान से बाएं घुमते हुए लिछु सिंधी की दुकान से तिलोक धारू मास्टर के घर से कुचामनिया चौक को शामिल करते हुए मुकेश गोयल के घर से सम्पत जमादार के घर से संजय टाक के घर से शिव भगवान जमादार के घर राधा फकीरा को शामिल कर बाएं घुमते हुए मघाराम बाकोलिया के घर से बाकोलिया चौक को शामिल करते हुए नागर बाकोलिया के घर से रास्ता क्रॉस कर संत रविदास आश्रम को शामिल कर दाएं घुमते हुए ओमप्रकाश बाकोलिया के घर से सोहनलाल सबलानिया के घर से पांचुराम फलवाड़िया के घर से बाएं होते हुए मूलाराम फलवाड़िया के घर तक।</p>
38	38	<p>अग्रसेन टावर से उतर की तरफ चल कर बुगालिया स्टेशनरी विश्वकर्मा स्वीकट्स एच.डी.एफ.सी. बैंक को लेकर पूर्व समस्त दुकानात व मकानात शामिल कर श्री बालाजी केडर्स से पूर्व में मुड़कर प्रजापति मंदिर को शामिल कर दक्षिण के मकानात लेते हुए पूर्व से चल कर भींवराज स्वामी की चक्की को शामिल कर पूर्व में चलते हुए चांद मार्केट शामिल कर हरकाराम सुगनचन्द पुरोहित को शामिल कर अशोक प्रजापत से दक्षिण मुड़ कर पश्चिम तरफ के मकान शामिल कर भगवान दास स्वामी को लेकर शंकरलाल फलवाड़ीया से पश्चिम की तरफ मुड़कर चलते हुए गोपीनाथ मंदिर को शामिल कर दक्षिण तरफ मुड़कर जाट मंदिर को शामिल कर पश्चिम तरफ मुड़कर उतर दिशा के समस्त मकान शामिल कर स्टेशन रोड़ पर उतर तरफ मुड़कर अग्रसैन टावर तक।</p>
39	39	<p>गोपाल गौशाला से शुरू होकर पूर्व दिशा रास्ते पर चलकर फायर स्टेशन के सामने कार्नर मकान समुन्दर खां के मकान से होकर कार्नर के मकान सरवर कार्जी के मकान को लेकर अजीम खां डालजी दरोगा को शामिल कर अलादीन खां कार्नर का मकान शामिल कर रफीक खां के मकान के आगे का चौक शामिल कर मकान ईसाक खां चौधरी कार्नर मकान नूर मोहम्मद से आगे चलकर पश्चिमी दिशा रास्ते पर चलते हुए मदन जी इन्दौरिया के नोहरे को शामिल कर संतोष माटोलिया से पश्चिम मुड़कर पोकरदास स्वामी से दक्षिण मुड़कर कबुतरखाना शामिल करते हुए जनाना अस्पताल व फतेहपुरिया सरोवर से गौपाल गौशाला तक।</p>
40	40	<p>इनायत खां साबखानी से शुरू होकर उतर दिशा में चलते हुए कायमखानी गेस्ट हाउस के सामने के मकानात शामिल करते हुए पीरू खां, नानू खां के घर के मकान को लेते हुए रास्ता क्रॉस कर हिदायत खां के मकान को लेकर दाएं हाथ के मकान लेते हुए आगे कच्चा राता रोशन खां से होते हुए अयुब खां लाडवाण बबलु खां साबखानी के घर से होते हुए सांसी बस्ती होते हुए ठरड़ा रोड़ तक पश्चिम दिशा के चलते हुए आगे गुलाब खां के मकान लेकर पश्चिम दिशा के मकान रूस्तम खां,</p>

		काजू खां लाडवाना फेजू खां लाडवाण, सरवर खां के मकान से मुड़कर दाएं हाथ के मकान लेते हुए घासी खां कलेक्टर के घर के लेते हुए रजाक खां ताजनान के मकान को लेते हुए सफी खां के मकान को लेते हुए शिम्भु खां का मकान इकबाल खां बशीर खां के मकान को लेते हुए मुराद खां रास्ता क्रोस कर कायमखानी मस्जिद तक मदीना मस्जिद के कार्नर मकान को लेकर आगे रास्ता क्रोस कर पूर्व के मकान बशीर खां दाएं हाथ के मकान सम्मिलित करते हुए पूर्व दिशा में चलते हुए दक्षिण दिशा के मकान शामिल करते हुए मुस्ताक खां के घर को लेते हुए इनायत खां साबखानी तक।
41	41	टोडू जी चक्की से शुरू होकर कोर्नर मकान दक्षिण दिशा के मकानात शामिल करते हुए खटीक शमशान घाट शामिल कर रास्ता क्रोस कर दक्षिण दिशा में चलते हुए पश्चिम के मकान लेते हुए दुलिया पम्प हाउस शामिल करते हुए कार्नर नोहरा खादम खां से रास्ता क्रोस कर पश्चिम दिशा में चलते हुए उतर दिशा के मकानात शामिल कर कायमखानी गेस्ट हाउस शामिल कर शेरू खां सामने हनीफ खां मकान कार्नर जोरावर खां फौजी अयुब खां फौजी के मकान लेकर दक्षिण से पश्चिम के मकान लेकर कार्नर मकान ल्याकत खां को लेकर रास्ता क्रोस कर उतर के मकान शामिल कर मांगु का खां नोहरा लेकर रास्ता क्रोस कर पूर्वी दिशा मकानात सम्मिलित करते हुए कार्नर मकान मोहन खां को लेकर घुमते हुए मुन्ना सरकार, कादर खां का मकान लेते हुए उतर दिशा में चलते हुए दांये हाथ के सारे मकान शामिल कर कार्नर मकान हुसैन खां लेते हुए मकान रमजान खां को लेकर रास्ता क्रोस कर पूर्वी दिशा के मकान शामिल करते हुए राधेश्याम, सीताराम अकाउटेण्ड लेते हुए टोडू जी चक्की तक।
42	42	दुलिया बास खटीक शमशान घाट के आगे पूर्व की तरफ मकानात लेते हुए अब्दुल कंजुड़ा को लेकर पूर्व की तरफ कन्हैयालाल का मकान व सालासर रोड़ चूंगी नाका को लेकर सालासर रोड़ क्रोस कर पूर्व की ओर चलते हुए दक्षिण दिशा के मकानात को लेते हुए भंवरलाल माली, गणपतमाली, दुलीचंद मेघवाल के मकान को लेकर दक्षिण दिशा में पगडंडी पर चलते हुए पश्चिम की तरफ चलते हुए महावीर माली की बाड़ी के पीछे की ओर सालासर रोड़ क्रोस करते हुए पूर्व की तरफ गोपाल गोशाला की बीड के साथ-साथ चलते हुए सम्पूर्ण मेघवाल बस्ती को शामिल करते हुए समाज कल्याण छात्रावास दाउद खां, छोटू खां, हिदायत खां, बाबू खां को सम्मिलित करते हुए पूर्व की तरफ दांये हाथ के मकान लेते हुए वापिस शमशान घाट तक।
43	43	कार्नर पर बालाजी चैक उतर पूर्वी मकान रामेश्वर जी खटीक को शामिल कर आगे चलते हुए पूर्व में मकान ठाकरों का गढ को लेते हुए नीचे चलते हुए पूर्व में मेघवाल बस्ती को शामिल करते हुए थानाजी की चक्की से आगे सालासर रोड़ पर सदगुरु भोजनालय को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हुए मारुति मंगल गैस को लेकर आगे रास्ता क्रोस कर पूर्व की तरफ मुड़ते हुए बांये हाथ का मकान नेमीचन्द्र ठेकेदार अख्तर का भट्टा विलियम पत्रकार एवं अन्दर की तरफ सामुदायिक

		भवन बिडदीदास जी की बगीची व स्वामियों के समस्त मकान लेकर उतर दिशा में मकान कालू कसाई को लेकर रास्ता क्रॉस कर उतर में चढते हुए पूर्वी दिशा के मकानात करते हुए कार्नर में मकान रामेश्वर जी खटीक।
44	44	कार्नर पर मकान ओमजी लीलण को लेकर पूर्व में चलते हुए उतर में भेरूजी का खेजड़ा बदरूदीन शाह तकिया को लेकर कार्नर पर मकान लालजी हाजी से उतर में चलते हुए बालाजी चैक क्रॉस कर कार्नर के मकान बनवारी खटीक से नीचे उतरते हुए नीचे मोतीलाल आर्य का पुराना मकान लेकर सड़क पर दक्षिण दिशा में चलते हुए कार्नर पर मनोज सियोता व पम्प हाउस से आगे चलकर कार्नर पर मकान पुखराज हरिजन से मुड़कर कार्नर पर मकान विजय हरिजन छगन जी की टाल को लेकर बनवारी खटीक के कबाड़ खाना से उतर में चलते हुए पूर्व के मकानात सम्मिलित करते हुए नानू खटीक से ओमजी लीलण के मकान तक।
45	45	नेमीचन्द्र ढेनवाल, गंगाधर बारवासा के मकान लेकर इसके पश्चिम की गली में दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पूर्वी दिशा के मकानात दानाराम तेजस्वी, सीताराम ढेनवाल, ओमप्रकाश तेजी, शंकरलाल बारवासा, मोहनलाल बारवासा, राजकुमार तेजी, अनवर सब्जी फरोश को शामिल करते हुए सड़क क्रॉस कर बानू कूजड़ा के मकान से उतर दिशा की सड़क पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दक्षिण दिशा के मकान हनुमान खटीक तक व कार्नर पर मकान असपाक कसाई से शुरू होकर मदरसा के उतर दिशा के मकान मोबिन कंजड़ा को लेकर रामदेवजी का मंदिर मकान लाला मेघवाल को लेकर पश्चिम दिशा के सारे मकानात बशीर कुजड़ा, आमीन कुंजड़ा, शामिल कर सड़क पर उतर दिशा की ओर रास्ता क्रॉस करके उतर में चलकर पश्चिम दिशा के मकान ओमप्रकाश सामरिया, कन्हैयालाल खटीक कार्नर पर नथमल सियोता को शामिल कर उतर पश्चिम दिशा की ओर घुमते हुए सड़क क्रॉस कर कार्नर पर आनन्द लाखन के मकान को शामिल करते हुए सड़क क्रॉस कर दक्षिण दिशा के मकानात शामिल करते हुए मोतीलाल आर्य गंगाधर लाखन से नेमीचन्द्र ढेनवाल तक।
46	46	सालासर रोड़ कार्नर पर पूर्व दिशा में भोजक के नोहरे से शुरू होकर दक्षिण दिशा में चलते हुए इण्डस्ट्रीयल ऐरिया शामिल करते हुए दिल्ली दरबार चांद धर्मकांटा को लेकर भोजलाई चैराहा को शामिल करते हुए सरावगी पेट्रोल पम्प को लेकर गणेश जाट को लेकर नया बस स्टैण्ड को लेकर कृषि उपज मंडी को लेकर चूंगी नाका के सामने रास्ता क्रास कर उतर दिशा के मकान लेकर पूर्व में चलते हुए सुरेश वकील के मकान आगे उतर के खाली नोहरो को लेकर पानी की टंकी को लेकर नाथ धोरा समस्त मकान लेकर पूर्वी दिशा में चलकर उतर दिशा के समस्त मकान विद्याधर पारीक कृषि मंडी बस स्टैण्ड के पीछे लेतेहुए पूर्वी दिशा में नगर पालिका के अंतिम सीमा तक आगे उतर दिशा में कैलाश खाती से आगे चलकर रतनलाल दारवाल कुनड़ मेघवाल पानी की होद नेमजी घोटिया, फारूक गोपालपुरिया उमरदीन कबाड़ी लेकर भोजक के नोहरे तक।
47	47	राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय नं. 06 से विजय कुमार ढेनवाल के मकान

		<p>से संजय आर्य के मकान होते हुए नोपसिंह राठौड़ के मकान रतन नायक होते हुए कार्नेर चेनाराम प्रजापत के मकान से दाएं घुमते हुए मांगीलाल काजी के मकान हरिजन शमशान होते हुए संजय टेण्ट होते हुए सालासर रोड़ से घुमते हुए रादुल टेन्ट हाउस बालाजी मन्दिर से नया बास स्टैण्ड के सामने हरिराम बाबा मंदिर होते हुए सुरेश प्रजापत का नोहरा से दाएं घुमते हुए कृष्णा स्कुल होते हुए अयुब काजी के घर घुमते हुए याकुब काजी यासीन कुंजड़ा पानी की टंकी से माता जी के मन्दिर होते हुए चांद जी पुजारी होते हुए खटीक तिराहा से मघाराम सामरिया से होते खटीक धर्मशाला होते हुए शंकर डाक्टर चेनाराम लाखन सुरजाराम सुगनचन्द खटीक के मकान सड़क क्रोस सामने नोहरा मनीष आर्य होते हुए भार्गव काँलोनी व भार्गव चक्की लेते हुए बाबूलाल सियोता मकान लेते हुए बागड़ा जनरल स्टोर को लेते हुए वापिस राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय नं. 06 तक।</p>
48	48	<p>चैपड़ा धर्मशाला से शुरू होकर दक्षिण दिशा की गली में पूर्व की तरफ चलते हुए उत्तर दिशा के मकानात लेकर राकेश शर्मा के मकान दुकान से ड्रीम लाईट सिनेमा होकर गैस एजेन्सी कार्नेर पर डोली का मकान से उतर की तरफ मुड़ते हुवे अशोक शर्मा के मकान से सामने पूर्व की तरफ चलते हुए तिलोक जी शास्त्री से मांगीलाल जायवाला अयान स्कूल होते हुए मुन्ना खुड़ी का मकान से महबूब चाड़वास का मकान लेकर आनन्द प्रजापत व अख्तर क्याल का मकान से नानू खां के मकान से मुराद खां के मकान से वैद प्रकाश प्रजापत का मकान से पूर्व साईं में शमशान घाट की तरफ चलते हुवे शमशान के गेट से उतर साईं में चलकर ताजु खां के मकान को लेकर रफीक भाटी लीलगर के मकान से पूर्व दिशा में शमशान घाट की दिवार उत्तर दिशा के मकान मांगीलाल चैहान मो0 हुसैन बिसायती के मकान से खातियों का नोहरा होते हुवे एफ.सी.आई. गोदाम गेट के सामने पूर्व साईं चलते हुवे उतर साईं पंचायत समिति की खाली भूमि व दुकानों को लेकर पंचायत समिति आफिस होते हुए जे.बी.टी. ट्रांसपोर्ट पश्चिम साईं में चलते हुवे दक्षिण दिशा जाट छात्रावास बालाजी बेट्री पी.डब्ल्यूडी. आफिस एवं मारुति गैस एजेन्सी बागवान का मकान से बगीची नगर परिषद गार्डन विश्रामालय शामिल कर स्टेशन रोड़ से पूर्व दिशा चलते हुवे चैपड़ा धर्मशाला तक।</p>
49	49	<p>चैन रूप सामरिया के घर से पश्चिम चलकर गोमजी नाई युनुस गोपालपुरिया को लेकर उतर की तरफ चलते हुए पूर्व दिशा के मकानात शामिल कर प्रजापती पंचायत भवन लेकर रहीम खां ठेकेदार से पूर्व दिशा में मुड़कर टीकुराम प्रजापत से चुनीलाल प्रजापत से उतर दिशा से मुड़कर शमशान भूमि को शामिल करते हुए एफ.सी.आई. गोदाम को शामिल कर सालासर रोड़ पर दक्षिण दिशा पर चलते हुए सुजला टायर तोदी मोटर्स नरुका मार्केट से पश्चिम की तरफ मुड़कर कब्रीस्तान को शामिल कर एल.एच.डी. एयर कुल पश्चिम की तरफ चलते हुवे गोपाल तुनवाल से दक्षिण तरफ मुड़कर सोहनलाल प्रजापत से दक्षिण की तरफ चलते हुए पश्चिम दिशा के समस्त मकानात शामिल करते हुवे हरिजन सामुदायिक भवन से विक्रम आर्य की दूकान से रास्ता क्रोस कर गोबिन्द टाक रतनलाल चावरिया के बुदयराज बारवासा को लेकर</p>

		पश्चिम में चलकर उतर के मकानात रुपचन्द जी सुवासिया से गली क्रेस कर हरिराम के घर से प्रहलाद तुनगरिया से रास्ता क्रोस कर कार्नर शंकरलाल मण्डावरिया से भगवान दास स्वामी से सम्पतसिंह राठौड का मकान पश्चिम दिशा के सारे मकान लेते हुए कार्नर व महावीर प्रजापत से सांड चैक टंकी को सामिल करते हुए मुराद खां क्यामखानी से चैन रुप सामरिया के घर तक।
50	50	पी.सी.बी. स्कूल के पीछे वाले दरवाजे से उतर दिशा में चलते हुये मकान मांगीलाल भाटी को शामिल कर बाबुलाल सोनी जे.के. निवास बी.आर.के.जी.बी. बैंक स्टेशन रोड की पूर्व दिशा में चलकर आर.डी.एस. स्कूल से स्टेशन रोड क्रोस करते हुये पूर्वी दिशा में चलकर दक्षिण दिशा के मकानात शामिल करते हुये हारून खुड़ीवाला से दक्षिण दिशा पश्चिम के मकानात शामिल कर आगे चलकर स्कूल नं. 14 असगर युसुफ खड़ीवाला से पूर्व की तरफ चलते हुए आरीफ पुत्र दीन मोहम्मद पलदार से मदन लाल नाई भंवरू खां से पश्चिम में चलकर उतर दिशा के मकानात शामिल करते हुये शम्भुसेन ढोली को लेकर मोहनलाल जाट की दुकान शामिल करते हुये दक्षिण तरफ चलकर पी.सी.बी. स्कूल से पश्चिम तरफ चलकर पी.सी.बी. स्कूल के पीछे के गेट तक।
51	51	खाजू खां, अजीम खां कायमखानी से शुरू होकर पूर्व की ओर चलकर मेहबुब चैक मेहबुब लाडनू वाले मकानों से उतर की तरफ चलकर तोकिर हसन मस्जिद सामुदायिक भवन बिलाल चाड़वास वाले के घर से पश्चिमी की और मुड़कर चलकर रजाक जी छापर वाले का मकान यासीन जी गोपालपुरिया सिकंदर गोपालपुरिया गनेश नाई के मकान से दक्षिण की तरफ चलकर ड्रीम लाईट सिनेमा रोड के दक्षिण साईड के मकान आगे ताराचन्द जाट के मकान से दक्षिण की तरफ चलकर सदीक खां का मकान होते हुए सादुल खां के मकान से माली चैक में पूर्व साईड के मकान होते हुए मुनाफ जी काजी के मकान से पूर्व की ओर मुस्ताक खां का मकान से अजीम खां के मकान तक।
52	52	खाण्डल विप्र मण्डल से शुरू होकर पूर्व की तरफ चलते हुये राजस्थान टेन्ट हाउस बिलास भाटी से कालू पलदार से छोटू जी खुड़ीवाला के मकान से दक्षिण रास्ते में चलते हुए पूर्व साईड के मकान दीनुजी घोड़ी वाले, मिसुजी, अयुब खड़ीवाला, अलीजी, साबीर गोपालपुरिया के घर से पूर्व में चलते हुए मनीहार का घर बोदू जी गोपालपुरिया के घर से उतर के रास्ते पर चलते हुए पश्चिम साईड के मकान इब्राहिम खां इन्द्राबाल निकेतन स्कूल, लालचन्द प्रजापत से नूरदीन खां के मकान से पश्चिम में चलते हुए दक्षिण साईड के मकाने को लेते हुए इस्माईल जी क्याल से आगे उतर की तरफ माली चैक होते हुए साले मो0 कायमखानी से अल्लादीन खां का मकान भंवर जी चैहान बारदाना वाला के गोदाम से अमराराम जाट के मकान से पश्चिम साईड से चलते हुए निर्मल सर्राफ का मकान सलीम अर्जीनेश का मकान ऋषी होटल व जांगिड़ हास्पिटल से लक्ष्मी काम्पलेक्स स्टेशन रोड से दक्षिण की तरफ चलते हुए पूर्व साईड के मकानात डा. सेठिया, कन्नोई बिल्डींग होते हुए खाण्डल विप्र मण्डल तक।

53	53	<p>गोपाल मेघवाल की दुकान से शंकरलाल मेघवाल चिनिया की घर की काँलोनी को शामिल करते हुए सत्तार व्यापारी के घर से बांये घुमते हुए गाड़ोदिया गेस्ट हाउस के चिपते-चिपते मैन सड़क तक रास्ता क्रोस कर सोहनलाल प्रजापत की चक्की से दाये घमते हुए अशोक शर्मा के मकान से ओमप्रकाश डीलर मकान को शामिल करते हुए मस्लिम व्यापारी के घर से अस्पाक व्यापारी के पुराने घर का शामिल करते हुए व्यापारी चैक् को शामिल कर व्यापारी मस्जिद को शामिल करते हुए व्यापारी मदरसे को शामिल करते हुए मोमिन सब्जीफरोश के घर के सामने से रास्ता क्रोस कर लाल जी व्यापारी के पुरोन घर को शामिल कर रास्ते-रास्ते फारुक भुट्टा, बिलाल भुट्टा से दांय चलते हुए असलम व्यापारी के घर को शामिल करते हुए रास्ता क्रोस कर गोपाल मेघवाल की दुकान तक।</p>
54	54	<p>स्टेशन रोड़ पर लोहिया भवन से उतर की तरफ चलते हुए भारत टेन्ट हाउस भीमसरिया स्कूल, वैकटेश्वर मंदिर, जाजोदिया धर्माशाला से बस स्टैण्ड से पूर्व की तरफ चलते हुए रेल्वे स्टेशन व गौरी गोल्डन ट्रांसपोर्ट व कंचन पींचा के मकान से बीडीएस. होटल से छापर रोड़ उतर की तरफ चलते हुए करवा का नोहरा हुसैन खां की दुकान, धनजी रिणवा की दुकान, रेल्वे क्रोस करते हुए रेल्वे लाईन के बराबर सुजानगढ की सीमा उतर की तरफ मुड़कर कब्रिस्तान को शामिल करते हुए सुजानगढ सीमा के मकान को शामिल करते हुए छापर रोड़ पर महेन्द्रा ट्रेक्टर शोरूम आबकारी थाना, छापर चुंगी नाका वापिस रेल्वे क्रोस पार करके रेल्वे लाईन के पास पश्चिम की तरफ रेल्वे स्टेशन को शामिल करते हुए पारीक आरोग्य सदन के दक्षिण की तरफ चलते हुए बी.के. ट्रेडर्स की दुकान से कमल राठी को लेते हुए लुणियां के मकान से पूर्व दिशा में चलते हुए स्टेशन रोड़ पर लोहिया भवन तक।</p>
55	55	<p>सालासर रोड़ पर एफसीआई. गोदाम के सामने 33 केवीवी. जीएसएस. से शुरू होकर पूर्व दिशा के मकानात लेते हुए केजरीवाल पेन्ट्रोल पम्प लेकर खत्री होटल व गांधी आश्रम विनायक सेल रेल्वे फाटक के दक्षिण मकानात को लेतेहुए पूर्वी दिशा में चलते हुए पश्चिम दिशा के मकानात नगर पालिका की सीमा की बांडड़ी लेतेहुए प्रगति नगर के समस्त मकानात लेते हुए पूर्वी दिशा में रास्ते में चलते हुए कार्नर पर शनि भगवान का मंदिर शामिल कर पश्चिम दिशा रास्ते पर चलते हुए उतरी दिशा के मकानात पूसारांम गुलेरिया, सुरेन्द्र जानू, बालाजी विरायटी रामेश्वर जाट लालूराम जाट रामस्वरूप बिजारणियां का मकान सम्मिलित करते हुए कार्नर पर वापिस 33 केवीवी. जीएसएस. तक।</p>
56	56	<p>सरीफ गोपालपुरिया गोरू की चक्की होते हुए इदुजी काजी से आगे चलकर इदुजी का नोहरा इदरीश गोपालपुरिया का मकान मुन्ना चैहान का मकान लेते हुए माण्डेता रोड़ दक्षिण तरफ चलते हुए अली चैहान आर के डेकोरेटर के मकान से आगे चलकर लालजी शर्मा के नोहरे से वापस पूर्व की तरफ मुड़कर उप स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए रेल्वे थाने व शिव मंदिर को शामिल करते हुए जीवराज सिंह, मुन्ना ढोली होते हुए भेरू चैक से पूर्व में रोशन लखारा के सामने गली में दिलवार माली को लेते हुए उतर</p>

		वाली गली लेते हुए सरीफ गोपालपुरिया के मकान तक।
57	57	शेर मोहम्मद गोपालपुरिया के घर से पूर्व की तरफ चलते हुए साबीर भाटी के मकान से अजीज खां मोयल के मकान से असलम भाट के मकान से उतर की तरफ मुड़कर पूर्व में चलकर आलम अली का मकान लेकर असगर खां के मकान से चलकर एक्सपोर्ट स्कूल होते हुए सामुदायिक भवन से नीचे उतरकर हजरत बिलाल मस्जिद के सामने दक्षिण की तरफ मकानों को लेते हुए दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए इन्द्रचन्द्र मार्केट को शामिल कर पश्चिम की तरफ महबूब गौरी का मकान, सलीम खुड़ीवाला का मकान लेते हुए बिलाल का मकान लेकर पश्चिम की तरफ होते हुए बाबू खां के मकान से माण्डेता रोड़ से दक्षिण तरफ चलते हुए लाईफ मेडिकल, खान बाबा काजी, ज्यान मोहम्मद खुड़ी वाला से वापिस पूर्व की तरफ चलते हुए रब्बानी व्यापारी के सामने पूर्व की तरफ चलते हुए शायर भाटी का मकान सागर नाई के मकान से शेर मोहम्मद गोपालपुरिया तक।
58	58	सम्राट होटल के दक्षिण की तरफ रास्ता पश्चिम की तरफ चलते हुए सिलावटों का मकान से आगे कार्नर पर दक्षिण की तरफ घुम कर फिर पूर्व की तरफ फिर दक्षिण की तरफ चलकर मंगतु जी गोपालपुरिया के मकान के सामने पश्चिम की तरफ चलते हुए जयप्रकाश, सुरेन्द्र जांगिड़ के मकान से होते हुए। बिजली ट्रांसफोरमर से पप्पु साईकिल वाले के घर से सिकन्दर अब्बास गोपालपुरिया के घर से दक्षिण चलकर मंगुतजी बिसायती के घर से अनवर जी बिसायती के पूर्व में जेठमल जी के घर को लेकर मदिना मस्जिद होते हुए सम्राट होटल तक।
59	59	रेल्वे माल गोदाम के पीछे माण्डेता रोड़ पर उतर की दिशा की तरफ चलते हुए पश्चिमी दिशा के मकानात देव गोसाई दूध डेयरी की दुकान व रामदेव मंदिर शामिल कर माण्डेता तलाई को छोड़ते हुए सती माता का मंदिर शामिल कर उतर दिशा रोड़ पर चलकर मेगा हाईवे पर चढकर पश्चिमी दिशा रोड़ पर पुलिस थाना पुलिस थाना की रोड़ चलते हुए माण्डेता रोड़ पश्चिमी दिशा की रोड़ पर चलते हुए पूर्वी दिशा माण्डेता काँलोनी शामिल कर आगे रास्ते पर चलकर ओमप्रकाश बिजारणिया व आगे बिजारणिया काँलोनी शामिल कर पूर्व रोड़ दिशा पर चलते हुए पश्चिमी दिशा चलते हुए कार्नर मकान शिव मंदिर रोड़ पर चलते हुए पश्चिमी दिशा के मकानात दिपा राम मेघवाल, रेखाराम मेघवाल, शिव मंदिर शामिल कर पूर्वी दिशा के रास्ते पर चलते हुए कार्नर मुड़ते हुए श्यामजी गोयल का पुराना मकान की गली में मुड़ते हुए रोड़ क्रॉस कर दक्षिण दिशा रास्ते पर चलते हुए पूर्वी दिशा कबूतर खाना पदमाराम कासनिया, जैसाराम प्रजापत से चलकर रेल्वे लाईन के पास-पास चलकर पूर्वी दिशा रास्ते के लालजी शर्मा, सत्य होटल शामिल कर नगर परिषद पम्प से रेल्वे माल गोदाम माण्डेता रोड़ तक।
60	60	लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट से उतर की तरफ चलते हुए एम.आर.एफ. टायर होते हुए मालू खां होटल से छापर तिराहा से नगर परिषद क्षेत्र की समस्त सीमा तक पश्चिम की तरफ चलते हुए बाल भारती स्कूल को लेकर माण्डेता स्कूल होते हुए आरूजु मेरिज गार्डन को लेकर आगे की गली में पूर्व की तरफ मुड़ते हुए अन्जुमन मदरसा से उतर की

	तरफ चलते हुए शेर मोहम्मद गोपालपुरिया के मकान से लालजी गोपालपुरिया के मकान से इन्द्रचन्द मार्केट के सामने नोहरा लेते हुए उतर की तरफ चलते हुए फिर पूर्व की तरफ हजरत बिलाल मस्जिद लेते हुए मुमताज खां के नोहरे से दक्षिण की तरफ हिदायत खां बशीर खां ठकेदार होते हुए मदरसा कायमखानी से लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट तक।
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आयुक्त
नगर परिषद सुजानगढ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।